



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 101]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 101]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का.आ. 111(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सख्या का आ 918(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के खेडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 59 के 20 900 कि मी से 95 000 कि मी (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करन/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 3 जून, 2011 को "सदेश" और "डीएनए" दोनों में प्रकाशित किया गया था,

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के कि.मी. 20900 से कि.मी. 95000 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश बॉर्डर सेक्शन) तक के मूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली सरचना सहित अथवा सरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक/सर्वे संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				मूल ब्लॉक/सर्वे संख्या	पैकी संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	खेड़ा	धसरा	सोनीपुरा/बालेविया	9		निजी	कृषि	0 - 64 - 86	(As per V F 7/12 Survey No - 9-1-1) नरसिंहभाई मानाभाई रामाभाई मानाभाई (As per V F 7/12 Survey No - 9-2) प्रतापभाई फुलाभाई पुनाभाई बयजीबेन वो फुलाभाई की पुत्री (As per V F 7/12 Survey No - 9-3) मधुरभाई रामाभाई चतुरभाई रामाभाई शनाभाई नाथाभाई परमार (As per V F 7/12 Survey No - 9-4) कनुभाई भुलाभाई मोहनभाई भुलाभाई रंजीतभाई भुलाभाई उडीबेन वो भुलाभाई की विधवा (As per V F 7/12 Survey No - 9-5) धुळभाई काळभाई
				37		निजी	कृषि	0 - 18 - 78	(As per V F 7/12 S.N. is 37 Paiki 1) शीलाबेन नाथाजी की विधवा रतीलाल नाथाजी शकरभाई नाथाजी उषाबेन नाथाजी सगुणाबेन नाथाजी मेरुभाई नाथाजी कोकीलाबेन नाथाजी दबुलाबेन नाथाजी अपुबेन नाथाजी (As per V F 7/12 S.N. is 37 Paiki 2) चंदनसिंह मकनसिंह अरविंदसिंह नंदनसिंह चौहाण रघुनाथसिंह मकनसिंह गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाथाजी जीताजी (As per V F 7/12 S.N. is 37 Paiki 3) गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
									(As per V F 7/12 S.N. is 37 Paiki 4) शीलाबेन नाथाजी की विधवा रतीलाल नाथाजी शकरभाई नाथाजी उषाबेन नाथाजी सगुणाबेन नाथाजी मेरुभाई नाथाजी कोकीलाबेन नाथाजी दबुलाबेन नाथाजी अपुबेन नाथाजी (As per V F 7/12 S.N. is 37 Paiki 5) गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 6) शीलाबेन नाथाजी की विधवा रतीलाल नाथाजी शकरभाई नाथाजी उषाबेन नाथाजी रमणुबाबेन नाथाजी गेरुभाई नाथाजी कोकीताबेन नाथाजी दुदुलाबेन नाथाजी अनुबेन नाथाजी (As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 7) चंदनसिंह मकरसिंह अरविचरित चंदनसिंह चौहान रघुनाथसिंह मकरसिंह
				38		निजी	कृषि	0 - 18 - 86	नरसिंहभाई मानाजी बिन नाथाजी वणझारा
				39		निजी	कृषि	0 - 07 - 12	मानाजी नाथाजी वणझारा लीलाबेन रामभाई
				43		निजी	कृषि	1 - 27 - 65	(As per V F 7/12 S N is 43 Paiki 1) शर्मिष्ठाबेन मनुभाई मगळभाई हीरलबेन मनुभाई मगळभाई सगीताबेन मनुभाई मगळभाई नयनाबेन दो मनुभाई मगळभाई की विधवा कमनाबेन दो डाहयाभाई की विधवा मजुलाबेन डाहयाभाई गुरुशभाई डाहयाभाई रमेशभाई डाहयाभाई रेखाबेन डाहयाभाई नरसिंहभाई मानाजी बिन नाथाजी वणझारा गोलकी सुरजचंद प्रतापसिंह (As per V F 7/12 S N is 43 Paiki 2) गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
				45		निजी	कृषि	0 - 05 - 85	माछी रंगभाई गुणगाई माछी गीताभाई दुधगाई
				48		निजी	कृषि	0 - 35 - 98	(As per V F 7/12 S N is 48 Paiki 1) धुळीबेन मोतीभाई काहयाभाई माछी अनापभाई मोतीभाई काहयाभाई माछी अगुबेन मोतीभाई काहयाभाई माछी भारतभाई रघुनाथजी के पुत्र माछी निडजलभाई मधुसूभाई माछी शकरभाई मधुसूभाई (As per V F 7/12 S N is 48 Paiki 2) मगळभाई साकळभाई रज्जीभाई शाताबेन साकळभाई रज्जीभाई डाडीबेन साकळभाई रज्जीभाई वपाबेन साकळभाई रज्जीभाई रमणभाई साकळभाई रज्जीभाई गोमतीबेन साकळभाई रज्जीभाई की विधवा गगाबेन रज्जीभाई की विधवा
				49		निजी	कृषि	0 - 44 - 26	प्रविणसिंह कान्हिसिंह जेतसिंह राजेन्द्रसिंह कनकसिंह जेतसिंह जैलेंद्रसिंह कान्हिसिंह जेतसिंह वीरजबेन कनकसिंह जेतसिंह प्रफुलाबेन कनकसिंह जेतसिंह बालाबेन पुष्पेन्द्रसिंह धर्मेन्द्रसिंह पुष्पेन्द्रसिंह सरोजबेन पुष्पेन्द्रसिंह मीनाबेन पुष्पेन्द्रसिंह भावनाबेन पुष्पेन्द्रसिंह हरीशचंद कनकसिंह जेतसिंह छत्रसिंह जेतसिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				50		मिजी	कृषि	0 - 15 - 28	<p>हरीमनसिंह क. मिसिह प्रविणसिंह कनकसिंह धीरजबे 1 क. मिसिह की पुत्री राजेन्द्रसिंह कनकसिंह प्रफुल्लबेन कनकसिंह की पुत्री शैलेन्द्रसिंह कनकसिंह बालाबेन पुष्पेन्द्रसिंह की विधवा सरोजबेन पुष्पेन्द्रसिंह धोमेन्द्रसिंह पुष्पेन्द्रसिंह मीनाबेन पुष्पेन्द्रसिंह भावनाबेन पुष्पेन्द्रसिंह</p>
				461	461/3	मिजी	कृषि	0 - 00 - 44	<p>(As per V F 7/12 S N is 461 Paiki) उज्जीबेन जेहमाई फादामाई की विधवा रमीतमाई जेहमाई हठीमाई जेहमाई मगळमाई शकरमाई प्रभातमाई शकरमाई चपाबेन शकरमाई की पुत्री चवळबेन शकरमाई की पुत्री मजुलाबेन शकरमाई की पुत्री चतुरबेन शकरमाई की पुत्री रहजीमाई फतामाई चतुरमाई गेदालमाई लखीबेन गलामाई की विधवा मणीलाल गलामाई नटवरमाई गलामाई प्रतापमाई गलामाई खोडमाई गलामाई दिलीपमाई गलामाई चवळबेन गलामाई की पुत्री रमीलाबेन गलामाई की पुत्री</p> <p>सगीर महेशमाई रमणमाई मजुलाबेन रमणमाई की पुत्री दिवाळीबेन चतुरमाई की पुत्री मसुरीबेन चतुरमाई की पुत्री रहबेन चतुरमाई की पुत्री शीवामाई शनामाई कपीलाबेन शनामाई की पुत्री उदामाई शनामाई चदुमाई शनामाई प्रविणमाई शनामाई</p>
				473	473 / 1	मिजी	कृषि	0 - 56 - 42	<p>(As per V.F. 7/12 S.N is 473 Paiki 1 Paiki) उज्जीबेन जेहमाई फादामाई की विधवा रंगीतसिंह हठीसिंह जोरामाई सगीर बळवतसिंह जोरामाई के वाली अमृतबेन सगीर गणपतमाई जोरामाई के वाली अमृतबेन सगीर प्रेमिलाबेन जोरामाई के वाली अमृतबेन शंकरमाई फादामाई</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				485	485 / C	निजी	कृषि	0 - 15 - 37	(As per V F 7/12 S N Is 485 / C) बेजीबेन जेणाभाई रहबेन गुणभाई जेणाभाई की विधवा शनाभाई सुराभाई तखीबेन जेणाभाई की पुत्री राजुबेन जेणाभाई की पुत्री गणपतभाई सुराभाई परमार गंगाबेन नानाभाई जेणाभाई की विधवा परमार राजेशभाई नानाभाई परमार राजीबेन नानाभाई की पुत्री परमार सुखीबेन सोमाभाई जेणाभाई की विधवा परमार अनुपभाई सोमाभाई परमार छजसिंह सोमाभाई परमार कोकीलाबेन सोमाभाई की पुत्री परमार मधुबेन सोमाभाई की पुत्री (As per V F 7/12 S N Is 485 / C Paiki 1) पटेल प्रियवत्सुमार प्रभातभाई
					488 / B	निजी	कृषि	0 - 08 - 08	अ सी सी
				488	488 / C	निजी	कृषि	0 - 05 - 06	रघाभाई कोह्याभाई साकळभाई भा. जभाई साधुभाई शनाभाई जोहरभाई शनाभाई धुलीबेन शनाभाई मणीबेन वी प्रभातभाई की विधवा दशरथभाई प्रभातभाई अर्जुनभाई प्रभातभाई हीराबेन प्रभातभाई
				489	489 / B	निजी	कृषि	0 - 10 - 51	अ सी सी
					489 / C	निजी	कृषि	0 - 04 - 05	मंगळभाई शनाभाई
				492	492 / B	निजी	कृषि	0 - 06 - 10	अ सी सी सिमेन्ट कंपनी सेवालीया
					492 / C	निजी	कृषि	0 - 02 - 02	माइनभाई डाब्याभाई रासाभाई काभडभाई बइजीबेन वी डाब्याभाई काभडभाई की विधवा
				493	493 / B / 1 / Paiki	निजी	कृषि	0 - 08 - 11	अ सी सी सिमेन्ट कंपनी सेवालीया
					493 / B / 2 / Paiki	निजी	कृषि	0 - 05 - 28	अ सी सी सिमेन्ट कंपनी सेवालीया
					493 / C	निजी	कृषि	0 - 06 - 07	(As per V F 7/12 S N 493-3-C) रहजीभाई फनाभाई
				494	494 / B	निजी	कृषि	0 - 15 - 02	अ सी सी सिमेन्ट कंपनी सेवालीया
					494 / C	निजी	कृषि	0 - 04 - 05	शकरभाई घतुरभाई पटेल
					495 / B	निजी	कृषि	0 - 14 - 39	(As per V F 7 / 12 S N 495 / C - Paiki 1) अ सी सी सिमेन्ट कंपनी सेवालीया
				495	495 / C	निजी	कृषि	0 - 05 - 05	(As per S N 495 - C - Paiki 2) धुलाभाई नानाभाई नाथाभाई नानाभाई डहीबेन वी कालाभाई नानाभाई की विधवा जेनीबेन वी मधुरभाई घतुरभाई की पुत्री सगीर ओमकारसिंहजी गणजीतराहजी के वाली नौतमकुमार
				512	512 / 2	निजी	गृह	0 - 08 - 38	अ सी सी सिमेन्ट कंपनी सेवालीया
				513	513 / 3	निजी	कृषि	0 - 01 - 47	(As per V F 7/12 S N Is 513 / 2 Paiki) देसाईभाई शनाभाई ववातभाई अभाभाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	18-
				521		निजी	कृषि	0-03-67	<p>गजरावेन मधुरभाई की विधवा बबलीवेन मधुरभाई की पुत्री रइवेन मधुरभाई की पुत्री नखतभाई मधुरभाई शनाभाई मधुरभाई मधुवेन मधुरभाई की पुत्री कपूरवेन वी नाथभाई मधुरभाई की विधवा विक्रमभाई नाथभाई शातावेन नाथभाई की पुत्री भलाभाई नाथभाई सुशीलावेन नाथभाई की पुत्री</p>
				523	523/1	निजी	कृषि	0-37-07	<p>(As per V F 7/12 SN 523/1) रायसगभाई कामडभाई संगीर ओपकारसिंहजी रणजीतसिंहजी के वाली कुवरवा (As per V F 7/12 SN 523-2) सुकाभाई काह्याभाई शेमाभाई काह्याभाई चतुरभाई काह्याभाई परमातभाई काह्याभाई उडीवेन काह्याभाई ककुवेन काह्याभाई जमनाबेन हेमाभाई काह्याभाई की विधवा गोखनभाई हेमाभाई मणीवेन हेमाभाई बइजीवेन हेमाभाई रुपावेन सोमाभाई हेमाभाई की विधवा दितीपभाई सोमाभाई</p> <p>(As per V F 7/12 SN. 523-3) शनाभाई शामडभाई की विधवा पुळगाभाई रइजीभाई सवितावेन रइजीभाई सोमाभाई रइजीभाई जेलीवेन रइजीभाई मुलाभाई रइजीभाई खंडरवेन रइजीभाई शामडभाई की विधवा कामडभाई रइजीभाई सुराभाई रामाभाई बालुवेन रामाभाई काशीवेन रामाभाई गजरावेन रामाभाई की विधवा खोडाभाई प्रतापभाई रमणभाई प्रतापभाई मीनावेन नखतभाई की पुत्री सुरजवेन प्रतापभाई मीनावेन प्रतापभाई नदावेन प्रतापभाई की विधवा</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(As per V F 7 / 12 S N 523- 4) तखीबेन मोहनभाई की विधवा विक्रमभाई मोहनभाई परवतभाई मोहनभाई नरवतभाई मोहनभाई रमणभाई रइजीभाई गुलाबभाई रइजीभाई शाताबेन रइजीभाई कान्ताबेन रइजीभाई सविताबेन रइजीभाई काशीबेन रइजीभाई की विधवा शीवाबेन नानाभाई की विधवा सुधाबेन काळामाई राजेशभाई काळामाई विजयभाई काळामाई किस्मतभाई काळामाई मधीबन काळामाई की विधवा सगीर रेखाबेन अनुभाई के वाली कपिलाबेन सगीर गयीबेन अनुभाई के वाली कपिलाबेन सगीर रमेशभाई अनुभाई के वाली कपिलाबेन कपिलाबेन अनुभाई की विधवा
				533		निजी	कृषि	0 - 01 - 90	कोह्याभाई दिपाभाई नरवतभाई दिपाभाई सुखीबेन दिपाभाई गगाभाई की विधवा शान्ताबेन दिपाभाई की पुत्री रेवाबेन दिपाभाई की पुत्री पुनाभाई गगाभाई काळीबेन गगाभाई नगाबेन गगाभाई जीवीबा गगाभाई अदरभाई की विधवा कान्ताबेन नानाभाई गगाभाई की विधवा मगुबन नानाभाई की पुत्री
				534		निजी	कृषि	0 - 14 - 50	मोहनभाई छगनभाई हीराभाई चदुभाई
				535		निजी	कृषि	0 - 12 - 85	सविताबेन रइजीभाई जेतोबेन रइजीभाई परतापभाई डाहयाभाई रमणभाई डाहयाभाई सुरजबेन डाहयाभाई अदरबेन रइजीभाई की विधवा धुलाभाई रइजीभाई सोमाभाई रइजीभाई मुलाभाई रइजीभाई काभइभाई रइजीभाई नटाराभाई कमालभाई गजराबेन रामाभाई साभाई की विधवा सुयाभाई रामाभाई मईजीभाई रामाभाई बातुबेन रामाभाई काशीबेन रामाभाई हरखाबेन भारतभाई की विधवा मीनाबेन नरतभाई की पुत्री रमेशभाई भारतभाई राजेशभाई भारतभाई काशीबेन शनाभाई की पुत्री राहुबेन शनाभाई की पुत्री शाताबेन शनाभाई की पुत्री कमलाबेन शनाभाई की पुत्री सानीबेन शनाभाई की पुत्री किरीटभाई शनाभाई चदाबेन डाहयाभाई की विधवा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				536		निजी	कृषि	0 - 06 - 70	प्रतापभाई मगनभाई
				537		निजी	कृषि	0 - 00 - 91	रताभाई काभइभाई खाट जनाभाई काभइभाई खाट बईजीबेन डाहयाभाई कभइभाई की विधवा मोहनभाई डाहयाभाई मगबेन जीवामाई की विधवा काकुभाई जीवामाई तुलसीभाई जीवामाई काशीबेन जीवामाई इशबेन जीवामाई वजीबेन जीवामाई पावतीबेन जीवामाई मीनाबेन जीवामाई
				548		निजी	कृषि	0 - 01 - 36	वेचातभाई शनाभाई शामाभाई शनाभाई डाहयाभाई शनाभाई गुरीबेन शनाभाई की पुत्री सगीर कृपार श्री ओम्कारसिंहजी रणजीतसिंह के वाली मौतमवा कुवरवा]
				551		निजी	कृषि	0 - 15 - 66	बसुभाई जेहाभाई वतुरबेन वो जेहाभाई की पुत्री मणीबेन वो जेहाभाई की पुत्री मयुबेन वो जेहाभाई की पुत्री कोकीलाबेन वो बाबुभाई जेहाभाई की विधवा भीखभाई बाबुभाई महेन्द्रभाई बाबुभाई रमणभाई मंगलभाई डाहयाभाई मंगलभाई विहलभाई मंगलभाई अमृतबेन वो रइजीभाई मंगलभाई की विधवा मरतभाई रइजीभाई मुकेशभाई रइजीभाई
				588		निजी	कृषि	0 - 27 - 59	सालमभाई शकरभाई शान्ताबेन शकरभाई रइबेन शकरभाई कोहया की विधवा मोविदभाई मोहनभाई कान्तीभाई मोहनभाई रमणभाई मोहनभाई कंकुबेन मोहनभाई
				593		निजी	कृषि	0 - 09 - 37	(As per V F 7/12 S no. 593 Paiki 1) सगीर रंगीतभाई जेहाभाई के वाली शाताबेन शाताबेन जेहाभाई नरुभाई की विधवा (As per V F 7/12 S no. 593 Paiki 2) सालमभाई माधामाई (As per V F 7/12 S no. 593 Paiki 3) सालमभाई शकरभाई शान्ताबेन शकरभाई रइबेन शकरभाई कोहया की विधवा मोविदभाई मोहनभाई कान्तीभाई मोहनभाई रमणभाई मोहनभाई कंकुबेन मोहनभाई (As per V F 7/12 S.no. 593 Paiki 4) अरविदभाई रइजीभाई नटुभाई रइजीभाई काशीबेन । रइजीभाई पुला की विधवा गजराबेन नानाभाई पुला की विधवा शान्ताबेन काळभाई मधीबेन काळभाई डाहयाभाई नानाभाई (As per V F 7/12 S.no. 593 Paiki 5) शकरभाई शामलभाई डाहयाभाई शामलभाई प्रभातभाई शामलभाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				595		निजी	कृषि	0 - 29 - 39	शंकरभाई शामळभाई डाह्याभाई शामळभाई प्रभातभाई शामळभाई
				596		निजी	कृषि	0 - 65 - 77	चंपाबेन नरसिंहभाई लोलाबेन रामाभाई
				597		निजी	कृषि	0 - 68 - 12	नरसिंहभाई मनाजी बीन नाथाजी वणझारा गंगाबेन खातुभाई की विधवा रंगीतभाई खातुभाई नरवतभाई खातुभाई मधुबेन खातुभाई कमलाबेन खातुभाई शांताबेन खातुभाई जीवीबेन खातुभाई शुशीबेन खातुभाई
				600		निजी	कृषि	0 - 05 - 05	मनाजी नाथाजी वणझारा शानाभाई जेहाभाई सगीर रंगीतभाई जेहाभाई के वाली शान्ताबेन शान्ताबेन जेहाभाई नाथा की विधवा

[फा स भाराप्र/बीओटी-अहमदाबाद/एनएच-59/11483]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2012

S.O. 111(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O 918 (E)**, dated the **29th April, 2011**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 59 on the stretch of land from **Km 20.900 to Km 95.000 (Ahmedabad - Gujarat /MP Border Section)** in District Kheda in the State of Gujarat

And whereas the substance of the said notification has been published in "**SANDESH**" and "**DNA**" both dated the 3rd June, 2011, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government:

1875/12-2

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 20.900 to Km 95.000 (Ahmedabad - Gujarat/MP Border) on the National Highway No. 59 in the State of Gujarat

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Block / Survey number		Type of land	Nature of land	Area (In hectares)	Name of person interested
				Original Block / Survey number	Paiki number				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kheda	Thasra	Sonipura / Balevia	9		Private	Agricultural	0 - 64 - 86	(Survey No - 9-1-1) Narsinhbhai Manabhai Ramabhai Manabhai (Survey No - 9-2) Pratapbhai Fulabhai Punabhai Bayajiben Daughter of Fulabhai (Survey No - 9-3) Malhurbhai Ramabhai Chaturbhai Ramabhai Shanabhai Nathabhai Parmar (Survey No - 9-4) Kanubhai Bhulabhai Mohambhai Bhulabhai Rangitbhai Bhulabhai uthiben widow of Bhulabhai (Survey No - 9-5) Dhulabhai Kalabhai
				37		Private	Agricultural	0 - 18 - 78	(As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 1) Sheelaben Nathaji's Widow Ratilal Nathaji Shankarbhai Nathaji Ushaben Nathaji Sagunaben Nathaji Merubhai Nathaji Kokilaben Nathaji Dhabulaben Nathaji Amuben Nathaji (As per V F 7/12 S.N. is 37 Paiki 2) Chandansinh Makansinh Arvindsinh Chandansinh Chauhan Raghunathsinh Makansinh Gujarat State Electricity Corporation Nathaji Jeelaji (As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 3) Gujarat State Electricity Corporation Limited

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 4) Sheelaben Nathaji's Widow Ratilal Nathaji Shankarbhai Nathaji Ushaben Nathaji Sagunaben Nathaji Merubhai Nathaji Kokilaben Nathaji Dhabulaben Nathaji Amuben Nathaji (As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 5) Gujarat State Electricity Corporation Limited (As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 6) Sheelaben Nathaji's Widow Ratilal Nathaji Shankarbhai Nathaji Ushaben Nathaji Sagunaben Nathaji Merubhai Nathaji Kokilaben Nathaji Dhabulaben Nathaji Amuben Nathaji (As per V F 7/12 S N is 37 Paiki 7) Chandansinh Makansinh Arvindsinh Chandansinh Chauhan Raghunathsinh Makansinh
				38		Private	Agricultural	0 - 18 - 86	Narsinhbhai Manaji Bin Nathaji Vanzara
				39		Private	Agricultural	0 - 07 12	Manaji Nathaji Vanzara Lilaben Ramabhai
				43		Private	Agricultural	1 27 - 65	(As per V F 7/12 S N is 43 Paiki 1) Sharmisthaben Manubhai Mangalbhai Hiralben Manubhai Mangalbhai Sangitaben Manubhai Mangalbhai Naynaben who is widow of Manubhai Mangalbhai Kamtaben who is widow of Dahyabhai Manjuiaben Dahyabhai Sureshbhai Dahyabhai Rameshbhai Dahyabhai Rekhaben Dahyabhai Narsinhbhai Manaji Bin Nathaji Vanzara Solanki Surendrasinh Pratapsinh (As per V F 7/12 S N is 43 Paiki 2) Gujarat State Electricity Corporation Limited
				45		Private	Agricultural	0 05 85	Machhi Ramabhai Chuthabhai Machhi Bhikhabhai Chuthabhai
				48		Private	Agricultural	0 35 98	(S N 48 Paiki 1 Paiki) Dhuliben Motibhai Kohyabhai Machhi Anopbhai Motibhai Kohyabhai Machhi Kamuben Motibhai Kohyabhai Machhi Bharalbhai Raghunathsinh's Son Machhi Vitthalbhai Mathurbhai Machhi Shankarbhai Mathurbhai (S N 48 Paiki 2) Mangalbhai Sankalbhai Rajibhai Shantaben Sankalbhai Rajibhai Dahiben Sankalbhai Rajibhai Chanpaben Sankalbhai Rajibhai Ramanbhai Sankalbhai Rajibhai Gomtiben Sankalbhai Rajibhai's Widow Gangaben Rajibhai's Widow

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				49		Private	Agricultural	0 - 44 - 26	Pravinsin Kanaksinh Jetsinh Rajendrasinh Kanaksinh Jetsinh Shailendrasinh Kanaksinh Jetsinh Dhirajben Kanaksinh Jetsinh Prafulaben Kanaksinh Jetsinh Balaben Pushpendrasinh Dharmendrasinh Pushpendrasinh Sarojben Pushpendrasinh Minaben Pushpendrasinh Bhavnaben Pushpendrasinh Hanshchandra Kanaksinh Jetsinh Chhatrasinh Jetsinh
				50		Private	Agricultural	0 - 15 - 28	Hanshchandrasinh Kanaksinh Pavinsinh Kanaksinh Dhirajben Kanaksinh's daughter Rajendrasinh Kanaksinh Prafulaben Kanaksinh's daughter Shailendrasinh Kanaksinh Balaben Pushpendrasinh's Widow Sarojben Pushpendrasinh Dharmendrasinh Pushpendrasinh Minaben Pushpendrasinh Bhavanaben Pushpendrasinh
				461	461/3	Private	Agricultural	0 00 - 44	(As per V F 7/12 S N is 461 Paiki) Ujben Jehabhai Fandabhai's widow Rangitbhai Jehabhai Hathibhai Jehabhai Mangalbhai Shankarbhai Prabhatbhai Shankarbhai Champaben Shankarbhai's daughter Chachalben Shankarbhai's daughter Manjulaben Shankarbhai's daughter Chaturben Shankarbhai's daughter Rajibhai Fatabhai Lakhiben Galabhai's widow Manilal Galabhai Natvarbhai Galabhai Pratapbhai Galabhai Khodabhai Galabhai Dilipbhai Galabhai Chanchalben Galabhai's daughter Ramilaben Galabhai's daughter Minor Mahesh bhai Ramanbhai Manjulaben Ramanbhai's daughter Diwaliben Chaturbhai's Daughter Masunben Chaturbhai's Daughter Raiben Chaturbhai's Daughter Sivabhai Shanabhai Kapilaben Shanabhai's Daughter Udabhai Shanabhai Chandubhai Shanabhai Pravinbhai Shanabhai
				473	473/1	Private	Agricultural	0 - 56 - 42	(As per V F 7/12 S.N is 473 Paiki 1 Paiki) Ujben widow of Jorabhai Fandabhai Rangit Snah Hathisinh Jorabhai Minor Balvantsinh Jorabhai's Guardian Amrutben Minor Ganpatbhai Jorabhai's Guardian Amrutben Minor Premilaben Jorabhai's Guardian Amrutben Shankarbhai Fandabhai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				485	485 / C	Private	Agricultural	0 - 15 - 37	(AS per V F 7/12 S N 485/C Bajiben Jenabhai Raiben widow of Surabhai Jenabhai Shanabhai Surabhai Takhiben who is daughter of Jenabhai Rajuben who is daughter of Jenabhai Ganpatbhai Surabhai Parmar Gangaben widow of Nanabhai Jenabhai Parmar Rajeshbhai Nanabhai Parmar Kapilaben who is daughter of Nanabhai Parmar Sukhiben widow of Somabhai Jenabhai Parmar Anupbhai Somabhai Parmar Chhatrasinh Somabhai Parmar Kokilaben who is daughter of Somabhai Parmar Manguben who is daughter of Somabhai (As per V F 7/12 S No 485/C Part 1) Patel Pnyankkumar Pramodbhai
				488	488 / B	Private	Agricultural	0 - 08 - 08	A C C
					488 / C	Private	Agricultural	0 - 05 - 06	Raghabhai Kohyabhai Sankalbhai Kohyabhai Sahibbhai Shanabhai Kodarbhai Shanabhai Dhuliben Shanabhai Maniben widow of Prabhatbhai Dasraibhai Prabhatbhai Anumbhai Prabhatbhai Hiraben Prabhatbhai
				489	489 / B	Private	Agricultural	0 - 10 - 51	A C C
					489 / C	Private	Agricultural	0 - 04 - 05	Mangalbhai Shakarbai
				492	492 / B	Private	Agricultural	0 - 06 - 10	A C C Cement Company Sevaliya
					492 / C	Private	Agricultural	0 - 02 - 02	Mohanbhai Dahyabhai Ramabhai Kabhibhai Bajiben widow of Dahyabhai Kabhibhai
				493	493 / B / 1 / Part 1	Private	Agricultural	0 - 08 - 11	A C C Cement Company Sevaliya
					493 / B / 2 / Part 1	Private	Agricultural	0 - 05 - 28	A C C Cement Company Sevaliya
					493 / C	Private	Agricultural	0 - 06 - 07	(As per S N 493 - 3 - C) Rajibhai Fatabhai
				494	494 / B	Private	Agricultural	0 - 15 - 02	A C C Cement Company Sevaliya
					494 / C	Private	Agricultural	0 - 04 - 05	Shankarbhai Chalurbhai Patel
				495	495 / B	Private	Agricultural	0 - 14 - 39	(As per V F 7/12 S No 495/C Part 1) A C C Cement Company Sevaliya
					495 / C	Private	Agricultural	0 - 05 - 05	(As per S N 495 C Part 2) Dhulabhai Nanabhai Nathabhai Nanabhai Dahiben Widow of Kalabhai Nanabhai Jeniben Daughter of Mathurbhai Chuthabhai Minor Omkarsinhji Ranjitsinhji's Guardian Nautamkumar
				512	512 / 2	Private	Agricultural	0 - 08 - 38	A C C Cement Company Sevaliya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				513	513 / 3	Private	Agricultural	0 - 01 - 47	(As per V F 7/12 S N is 513/2 Palki) Desaibhai Shanabhai Vechalbhai Abhabhai
				521		Private	Agricultural	0 - 03 - 67	Gajrabai Widow of Mathurbhai Babilben Daughter of Mathurbhai Raiben Daughter of Mathurbhai Narvalbhai Mathurbhai Shanabhai Mathurbhai Manguben Daughter of Mathurbhai Kapurben widow of Nathabhai Mathurbhai Vikrambhai Nathabhai Shantaben Daughter of Nathabhai Bhalabhai Nathabhai Sushrabai Daughter of Nathabhai
				523	523 / 1	Private	Agricultural	0 - 37 - 07	(As per V F 7/12 S No 523/1) Raysangbhai Kabhaibhai Minor Omkarsinhji Ranjitsinhji's Guardian Kuvarba (As per V F 7/12 S N 523- 2) Sukabhai Kohyabhai Bhemabhai Kohyabhai Chalurbhai Kohyabhai Parbhabhai Kohyabhai Dahiben Kohyabhai Kankuben Kohyabhai Jamnaben Hemabhai Kohyabhai's Widow Gordhanbhai Hemabhai Maniben Hemabhai Bajiben Hemabhai Rupaben Somabhai Hemabhai's Widow Dilipbhai Somabhai (As per V F 7/12 S N 523- 3) Shanabhai Sataha bhai's widow Dhulabhai Rajibhai Savitaben Rajibhai Somabhai Rajibhai Jelben Rajibhai Bhulabhai Rajibhai Andarben Rajibhai Shabhaibhai's Widow Kabhaibhai Rajibhai Surabhai Ramabhai Baluben Ramabhai Kashiben Ramabhai Gajrabai Ramabhai's Widow Khodabhai Pratapbhai Ramanbhai Pratapbhai Minaben Narvalbhai's Daughter Surajben Pratapbhai Minaben Pratapbhai Nandaben Pratapbhai's Widow (As per V F 7/12 S N 523- 4) Takhiben Mohanbhai's Widow Vikrambhai Mohanbhai Parvatbhai Mohanbhai Narvalbhai Mohanbhai Ramanbhai Rajibhai Gulabbhai Rajibhai Shantaben Rajibhai Kantaben Rajibhai Savitaben Rajibhai Kashiben Rajibhai's Widow Shivaben Nanabhai's Widow Sudhabai Kalabhai Rajeshbhai Kalabhai Vijaybhai Kalabhai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kismatbhai Kalabhai Maghiben Kalabhai's Widow Minor Rekhabin Anubhai's Guardian Kapilaben Minor Mangiben Anubhai's Guardian Kapilaben Minor Rameshbhai Anubhai's Guardian Kapilaben Kapilaben Anubhai's Widow
				533		Private	Agricultural	0 01 90	Koyabhai Dipabhai Naravatbhai Dipabhai Sukhiben Dipabhai Gagabhai's Widow Shantaben Dipabhai's Daughter Revaben Dipabhai's Daughter Punabhai Gagabhai Kaliben Gagabhai Nandaben Gagabhai Jiviben Gagabhai Anderbhai's Widow Kantaben Nanabhai Gagabhai's Widow Manguben Nanabhai's Daughter
				534		Private	Agricultural	0 14 50	Mohanbhai Chhanganbhai Hirabhai Chandubhai
				535		Private	Agricultural	0 - 12 - 85	Savitaben Rajibhai Jeliben Rajibhai Pratapbhai Dahyabhai Ramanbhai Dahyabhai Surajben dahyabhai Andarben Rajibhai's Widow Dhulabhai Rajibhai Somabhai Rajibhai Bhulabhai Rajibhai Kabhaibhai Rajibhai Natwarbhai Rumbhai Gajraben Ramabhai Sabhai's Widow Sukabhai Ramabhai Maijibhai Ramabhai Baluben Ramabhai Kashiben Ramabhai Harkhaben Bharatbhai's Widow Minaben Narvatbhai's Daughter Rameshbhai Bharatbhai Rajeshbhai Bharatbhai Kashiben Shanabhai's Daughter Rakuben Shanabhai's daughter Shantaben Shanabhai's Daughter Kamlaben Shanabhai's daughter Soniben Shanabhai's daughter Kuntbhai Shanabhai Chandaben Dahyabhai's Widow
				536		Private	Agricultural	0 - 06 - 70	Pratapbhai Maganbhai
				537		Private	Agricultural	0 - 00 91	Ratibhai Kabheibhai Khant Shanabhai kabhaibhai Khant Bagiben Dahyabhai Kabhaibhai's Widow Mohanbhai Dahyabhai Gangaben Jivabhai's Widow Kalubhai Jivabhai Tulshibhai Jivabhai Kashiben Jivabhai Ishaben Jivabhai Vajiben Jivabhai Paviben Jivabhai Minaben Jivabhai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				548		Private	Agricultural	0 - 01 - 36	Vechabhai Shanabhai Ramabhai Shanabhai Dahyabhai Shanabhai Bhumben Shanabhai's Daughter Minor Kumar Shri Omkarsinhji Ranjitsinh's Guardian Nautamba Kunwarba
				551		Private	Agricultural	0 - 15 - 66	Bachubhai Jehabhai Chaturben Daughter of Jehabhai Maniben Daughter of Jehabhai Madhuben Daughter of Jehabhai Kokilaben widow of Babubhai Jehabhai Bhikhabhai Babubhai Mahendrabhai Babubhai Ramanbhai Mangalbai Dahyabhai Mangalbai Vitthalbhai Mangalbai Amrutben widow of Rajibhai Mangalbai Bharatbhai Rajibhai Mukeshbhai Rajibhai
				588		Private	Agricultural	0 - 27 - 59	Salambhai Shankarbhai Shantaben Shankarbhai Raiben Shankarbhai Kohya's widow Govindbhai Mohanbhai Kantibhai Mohanbhai Ramanbhai Mohanbhai Kankuben Mohanbhai
				593		Private	Agricultural	0 - 09 - 37	(S N 593 Part 1) Minor Rangibhai Jehabhai's Guardian Shantaben Shantaben Jehabhai Natha's widow (S N 593 Part 2) Salambhai Madhabhai (S N 593 Part 3) Salambhai Shankarbhai Shantaben Shankarbhai Raiben Shankarbhai Kohya's Widow Govindbhai Mohanbhai Kantibhai Mohanbhai Ramanbhai Mohanbhai Kankuben Mohanbhai (S N 593 Part 4) Arvindbhai Rajibhai Natubhai Rajibhai Kashiben Rajibhai Dhula's Widow Gajrabai Nanabhai Dhula's Widow Shantaben Kalabhai Maghiben Kalabhai Dahyabhai Nanabhai (S N 593 Part 5) Shankarbhai Shamalbhai Dahyabhai Shamalbhai Prabhatbhai Shamalbhai
				595		Private	Agricultural	0 - 29 - 39	Shankarbhai Shamalbhai Dahyabhai Shamalbhai Prabhatbhai Shamalbhai
				596		Private	Agricultural	0 - 65 - 77	Champaben Narsinhbhai Lilaben Ramabhai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				597		Private	Agricultural	0 - 68 12	Narsinhbhai Manaji Bin Nathaji Vanjara Gangaben widow of Khatubhai Rangitbhai Khatubhai Narvalbhai Khatubhai Madhuben Khatubhai Kamlaben Khatubhai Shantben Khatubhai Jiviben Khatubhai Bhunben Khatubhai
				600		Private	Agricultural	0 - 05 - 05	Manaji Nathaji Vanjara Shanabhai Jehabhai Minor Rangitbhai Jehabhai's Guardian Shantaben Shantaben Jehabhai Natha's widow

[F No NHA/BOT-Ahmedabad/NH-59/11483]

MAYA PRAKASH, Dy Secy